



// सूचना //

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत नवीन सत्र 2024-25 में नवप्रवेशित ऐसे समस्त दिव्यांग छात्र जिन्होंने पुरुष छात्रावास में छात्रावास आवंटन हेतु गूगल फार्म पर अपना ऑनलाईन आवेदन किया है तथा उनका नाम आवंटन सूची में अंकित है को सूचित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर निर्धारित अवधि में उपस्थिति होकर कक्ष आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	कोर्स का नाम		दिनांक	दिन
1.	प्रथम पाली 10:00 बजे से 12:00 बजे	द्वितीय पाली 01:30 बजे से 03:30 बजे	11.11.2024	सोमवार
	MCA MBA M.Com MA	Ph.D M.Ed MSW		
2.	प्रथम पाली 10:00 बजे से 12:00 बजे	द्वितीय पाली 01:30 बजे से 03:30 बजे	12.11.2024	मंगलवार
	D.Pharm D.Ed BVA BBA BPO	LLM B Com LLB B.Pharm B. Com B. Ed		
3.	प्रथम पाली 10:00 बजे से 12:00 बजे	द्वितीय पाली 01:30 बजे से 03:30 बजे	13.11.2024	बुधवार
	BA B. Tech	B. Sc (CS & IT) PDCD		

छात्रावास आवंटन ऑनलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों में अंकों की प्रथम वरीयता सूची एवं रिक्त सीटों के आधार पर ही किया जायेगा। यदि किसी दिव्यांग छात्र द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में कोई गलत/असत्य सूचना पायी जाती है तो ऐसे छात्र के छात्रावास आवंटन प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर पाठ्यक्रम के अनुसार बुलाये गये छात्रों के छात्रावास आवंटन प्रकरण पर ही विचार किया जायेगा। छात्र द्वारा वेबसाइट पर अंकित फार्म की प्रति निकाल कर उसे पूर्ण रूपेण भरकर समस्त प्रमाण-पत्रों सहित लाना अनिवार्य होगा। (आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है।)

उपरोक्त वर्णित सारणी निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने वाले छात्रों को कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। तथा उनके छात्रावास आवंटन प्रकरण पर कोई विचार न करते हुए उनकी सीट रिक्त मानकर अन्य छात्र को आवंटित कर दी जायेगी।

संलग्नक-1. शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु दिव्यांग छात्रों की आवंटन सूची।

2. आवेदन फार्म की प्रति।

3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख/प्रमाण-पत्र की सूची।

29/11/2024

(प्रो० वीरेन्द्र सिंह यादव)
चीफ प्रोवोस्ट, छात्रावास



पुरुष छात्रावास
Boys Hostel

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय


दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Divyangjan Empowement Department, Govt. of Uttar Pradesh

पत्रांक : 610 / पु0छा0 / डीएसएमएनआरयू / 2024-25

दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
5. अधिष्ठाता छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय।
5. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
6. समस्त प्रोवोस्टगण, पुरुष छात्रावास।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. पुरुष छात्रावास की नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।


29/10/2024

(प्रो0 वीरेन्द्र सिंह यादव)
चीफ प्रोवोस्ट, छात्रावास



पुरुष छात्रावास
Boys Hostel

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Divyangjan Empowement Department, Govt. of Uttar Pradesh

शैक्षणिक सत्र 2024–2025 हेतु पुरुष छात्रावास कक्ष आवंटन हेतु फार्म जमा करने से पूर्व निम्न अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है:—

1. शैक्षिक सत्र 2024–25 में नवीन प्रवेश शुल्क रसीद की छाया प्रति।
2. आधार कार्ड की छाया प्रति।
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
4. जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
5. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (विद्यार्थी व माता-पिता)।
6. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
8. माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
9. अन्तिम सत्र के पाठ्यक्रम के अंक पत्र की छाया प्रति।

उपरोक्त अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के पूर्ण होने के उपरान्त ही आवेदन फार्म जमा किया जायेगा। वांछित अभिलेखों के अभाव में छात्रावास कक्ष आवंटन प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

BOYS HOSTEL FIRST PROVISIONAL LIST FOR ROOM ALLOTMENT**(11-11-2024)**

PH.D					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Shivam Sharma	Dharmendra	Ph.D	I	VI
2	VikasMaurya	BasantMaurya	Ph.D	I	OH
3	Anil Kumar	Arjun	Ph.D	I	OH
4	Kumar Gaurav	Uddal Singh	Ph.D	I	VI
5	Shiva	Shiva	Ph.D	I	HI
MSW					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Dwarika	Budhai	MSW	I	VI
2	Mukesh Kumar	MevaLal	MSW	III	OH
3	Nandan	KamleshDuby	MSW	I	VI
4	ParakhLamba	VikramLamba	MSW	I	OH
M.Ed					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Jagdeesh Prasad	Dilip Kumar	M.Ed	I	VI
2	Rupesh Mishra	Mahendra Kumar Mishra	M.Ed	I	VI
3	Bhola Shankar	Ram Dayal	M.Ed	I	OH
4	Dharmendra Kumar	Ajay Pal	M.Ed	I	OH
MCA					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Sunil Kumar	Sooraj Singh	MCA	I	OH
MBA					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Deepak Kumar	Deo Kumar Maharaj	MBA	I	OH
2	Raunak Srivastava	H C Srivastava	MBA	I	OH

16	Ganesh Yadav	Shauk Singh Yadav	M.A.	I	VI
17	Upender Singh	LalBahadur Singh	M.A.	I	VI
18	HariBabu	BhaiyaLal	M.A.	I	VI
19	Aanand Kumar Pandey	ShambhuNath Pandey	M.A.	I	VI
20	Pradeep Kumar	Sumesar	M.A.	I	VI
21	Pranshu Singh	Shankar Singh	M.A.	I	OH
22	ShubhamSaxena	Late Akhilesh Kumar Saxena	M.A.	I	VI
23	Govinda Kumar	RajuRanjan Ram	M.A.	I	OH
24	Abhishek Tiwari	Dinesh Tiwari	M.A.	I	OH
25	DipeshDiwakar	Dinesh Diwakar	M.A.	I	OH
26	MohdSarim	Faiyaz Ahmad	M.A.	I	OH
27	Umesh Kumar Rajbha	JanardanRajbhar	M.A.	I	VI
28	ShailendraMaurya	Mangru	M.A.	I	VI
M.COM					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Manish Gupta	Dhanesh Gupta	M. COM	I	OH



BOYS HOSTEL FIRST PROVISIONAL LIST FOR ROOM ALLOTMENT

(12-11-2024)

LLM

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Shreyansh	Dharmendra Dubey	LLM	I	VI
2	Sushil Kumar Gupta	Keshav Gupta	LLM	I	OH

D.PHARM

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Satyendra Kumar	LadduLalYadav	D. PHARM	I	OH
2	Arun Kumar Yadav	YogendraYadav	D. PHARM	I	HI
3	Umesh Kumar	Chintamani	D. PHARM	I	OH
4	Ramchandra	Govind Prasad	D. PHARM	I	OH
5	Prahlad	Ram Milan	D. PHARM	I	OH
6	Sudheer	Kashmir Singh	D. PHARM	I	OH

D.ED

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Satyendra Singh	ShyamSundar Singh	D. ED	I	VI
2	Akash Kumar	Shqrawan Kumar	D. ED	I	VI
3	Prempal Singh	Sonpal	D. ED	I	VI
4	Poshan Mishra	Piyush Mishra	D. ED	I	VI
5	Himanshu Sharma	Harendra Sharma	D. ED	I	HI

2	Sarvagya Pathak	Saurabh Pathak	BBA	I	OH
3	Harsh Yadav	Ravinder Kumar	BBA	I	HI
4	Vishal Kumar	Pramod Prasad	BBA	I	HI

B.PHARM


S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Ashish Prajapati	Hridaynarayan Prajapati	B. PHARM	I	OH
2	Anirudh Kumar Goutam	Ram Avtar	B. PHARM	I	OH
3	MohdFarhan	Mohammad Naim Khan	B. PHARM	I	OH

B.ED

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Rahul Kumar	Phool Chandra	B. ED	I	HI
2	Pogula Ajay	P Sampath	B. ED	I	HI
3	Pawan Kumar Yadav	Man Singh Yadav	B. ED	I	VI
4	Rahul Pal	Ram Nagina Pal	B. ED	I	VI
5	Animesh Kumar Verma	Anil Kumar Verma	B. ED	I	HI
6	Ankit Kumar	Sharvan Kumar	B. ED	I	VI
7	Rishabh Shukla	Dinesh Kumar Shukla,	B. ED	I	VI
8	Harish	Mukundi Ram	B. ED	I	VI
9	Muzakkir Khan	Mushtaquim Khan	B. ED	I	VI
10	Jwala Prasad Prajapat	NanhakuPraajapati	B. ED	I	OH
11	Golu	Dwarika Prasad	B. ED	I	VI
12	Deepak Kumar Mishra	Shivram Mishra	B. ED	I	VI

BOYS HOSTEL FIRST PROVISIONAL LIST FOR ROOM ALLOTMENT**(13-11-2024)**

B.A					
S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Brijesh	Ram Kripal	BA	I	VI
2	Mohit Kumar	Radheshyam	BA	I	VI
3	PappuPaswan	VikashPaswan	BA	I	VI
4	Dileep Prasad Mishra	Kedar Prasad Mishra	BA	I	VI
5	Himanshu Bharti	RakeshGautam	BA	I	VI
6	AnupYadav	RamniwasYadav	BA	I	HI
7	Gaurav Yadav	Shahveer Singh	BA	I	VI
8	Ravi Kumar	Maheshpal Singh	BA	I	VI
9	ShubhamVerma	Pawan Kumar Verma	BA	I	HI
10	Vijay Kumar	Shiv Kumar	BA	I	HI
11	Deepak Singh	Veer Pal Singh	BA	I	VI
12	Narendra Pal	Ram Swaroop Pal	BA	I	VI
13	Amit Nishad	Shri BauvaNishad	BA	I	VI
14	VaibhavMaurya	Haresh Kumar Maurya	BA	I	VI
15	Chhotu Kumar	Lalman	BA	I	VI



33	ArshThapa	Ashish Thapa	BA	I	VI
34	AmbujVerma	Vikramajeet Verma	BA	I	VI
35	Ankit Kumar	Manoj Kumar	BA	V	VI
36	Vipin Kumar Chauhan	Govind Chauhan	BA	V	VI
37	Asheesh	Radhacharan	BA	I	VI
38	Krishna Verma	Rajesh Verma	BA	I	VI
39	SurajYadav	Ramesh Chandra Yadav	BA	I	OH
40	Mithun Sharma	Badri Prasad	BA	I	VI

B.TECH

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Harshit Singh	Harsh Vardhan Singh	B.TECH	I	OH
2	K.Naveen	K.Alleppa	B. TECH	III	HI
3	Abhay Kumar	Kalika Prasad	B. TECH	I	OH
4	Amit Kumar	Ramashrya	B. TECH	I	OH
5	PremKushwaha	DeenanathKushwaha	B. TECH	III	OH
6	ChanderDev Mishra	DwarkaNath Mishra	B. TECH	I	HI

B.SC (CS&IT)

S. No	Name Of Student	Father's Name	Course	Semester	Disability
1	Amit Yadav	Devi Prasad Yadav	B. SC (CS & IT)	I	HI



क्रमांक S. No.



सत्र Session 20.....- 20.....

छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र

Application Form for Hostel Allotment

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

पासपोर्ट आकार
का फोटो चस्पा
करें Paste
here

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा To be filled by the Office

Allotted Room No. (आवंटित कक्ष संख्या) Fee Details

(शुल्क विवरण):

Date दिनांक: Challan No. चालान संख्या:

छात्रावास विद्यार्थियों हेतु For the Students of Hostel

विगत वर्ष छात्रावास आवंटन आवेदन पत्र संख्या Application Form No. of Last Year Allotted:

Name of the Student (in capital letters):

विद्यार्थी का नाम (हिंदी में):

Mob.no of the Student.....

पाठ्यक्रम (जिसमें नामांकित हैं) Course (in which, enrolled):
सेमेस्टर/वर्ष Semester/Year

प्रवेश शुल्क रसीद सं0/दिनांक Admission Receipt No. & Date: अंतिम परीक्षा में
प्राप्तकों का प्रतिशत Percentage of the Last Examination:

स्थानीय संरक्षक का नाम Local Guardian's Name: विद्यार्थी से
सम्बन्ध Relation with students

स्थानीय संरक्षक का पता Address of the Local Guardian:
.....

..... संरक्षक का मोबाइल न०
Mob. No. of the Local Guardian

Declaration by the Student

I _____ hereby declare that the particulars furnished by me (specially duration of hostel allotment) in this registration form are true to the best of my knowledge and belief. In case any information is found to be incorrect, University shall have full right to punish/rusticate me.
मैं..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है (विशेषकर विगत वर्षों में छात्रावास में रहने की अवधि), मेरे अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय को मुझे दण्डित/निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक Date:.....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
Signature/Thumb Impression of the Student

Undertaking (I)

प्रतिबद्धता (I)

I understand that:

1. Consumption and possession of all types of alcohol, cigarettes, narcotics and other drugs would automatically debar the student from residing in the University hostel and campus.
2. It is required to maintain the decorum in the hostel premises. Misbehavior with fellow students/hostel staff/Warden (s) will lead to rustication from the hostel.
3. Hostel administration reserves the right to allow or not to allow to any student in the hostel.
4. I shall abide by all the rules and regulations prescribed by the University and amended time to time. I shall vacate the hostel room within four days from the last date of examination at the end of even semester.

मैं समझता/समझती हूँ कि:

1. सभी प्रकार के अल्कोहल, सिगरेट, नॉरकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपभोग करने एवं उनको रखने से विद्यार्थी को स्वतः विश्वविद्यालय छात्रावास एवं परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा।
2. छात्रावास परिसर में मर्यादा बनाए रखना अपेक्षित होगा। सहपाठियों/हॉस्टल स्टाफ/वार्डन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
3. किसी विद्यार्थी को छात्रावास में अनुमति प्रदान करने अथवा न प्रदान करने का अधिकार छात्रावास प्रशासन के पास आरक्षित होगा।
4. मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग करूंगा। मैं सम-सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा की अंतिम तिथि से चार दिनों के भीतर छात्रावास का कमरा खाली कर दूंगा।

Signature of Parent/Guardian
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____

Signature of the Student
विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____

Anti Ragging Declaration/Undertaking (II)

एन्टी रैगिंग घोषणा/प्रतिबद्धता (II)

I, _____ Son/Daughter of _____ student of (course) _____ Semester _____ Year _____ Session _____ do hereby solemnly affirm and undertake that I shall not indulge in any form of Ragging and that shall make determine efforts to eradicate ragging totally.

I am fully aware that ragging of junior or other fellow students through physical or mental harassment is a heinous social evil and cognizable offence, that the barbarous act of ragging may disturb the mental balance of the students besides causing physical harm, that this may result into damaging consequence and adversely affect his career permanently and that serious cognizance shall be taken if I am found involved in ragging or of any complaint in this regard which may lead to my rustication from this University and also lodging a complaint with the police for taking action against me under the prevailing rules.

Further, I undertake to follow the hostel rules as well as the directives given by hostel administration and I shall be liable for disciplinary action, including expulsion from hostel, if I am found violating the same.

In the event of my in-eligibility to continue in the class for which I have registered, I shall vacate the Hostel immediately.

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ विद्यार्थी पाठ्यक्रम _____ सेमेस्टर _____ सत्र _____ शपथपूर्वक प्रतिबद्ध हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा रैगिंग को पूर्णतया समाप्त करने हेतु निश्चित प्रयास करूँगा/करूँगी।

मैं पूर्णतया अवगत हूँ कि कनिष्ठ अथवा अन्य सहपाठियों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक जघन्य सामाजिक बुराई एवं संज्ञेय अपराध है, तथा रैगिंग के क्रूरतापूर्ण कृत्य से विद्यार्थी का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने के साथ उसे शारीरिक क्षति पहुँच सकती है, तथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं एवं उसका कैरियर स्थायी रूप में प्रभावित हो सकता है और यदि मैं रैगिंग में संलिप्त पाया गया अथवा इससे सम्बन्धित मेरे विरुद्ध शिकायत पाई गयी तब इसका संज्ञान लेते हुए मुझे विश्वविद्यालय के छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी जायेगी।

पुनश्च, मैं छात्रावास के नियमों तथा छात्रावास प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हूँ तथा यदि मेरे द्वारा उक्त की अवहेलना की जाती है तब मेरे विरुद्ध छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिस कक्षा में मैं पंजीकृत हूँ यदि किसी कारणवश मुझे अयोग्य पाया जाता है तब मैं तत्काल छात्रावास खाली कर दूँगा/दूँगी।

Signature of Parent/Guardian
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
Name (नाम) : _____
Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): _____

Signature of the Student
विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____
Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): _____

छात्र/छात्राओं एवं उनके माता-पिता द्वारा छात्रावास हेतु देय सहमति/घोषणा/शपथ-पत्र

1. विद्यार्थी का नाम.....

2. पिता का नाम.....मो0नं0.....

3. माता का नाम.....मो0नं0.....

4. ब्लॉक.....कक्ष सं0.....

5. विभाग/संकाय/कक्षा.....सेमेस्टर.....

6. दिव्यांगता.....

7. जाति.....

8. जन्म तिथि.....

9. पिता का आफिस का पता

मो0नं0(आफिस).....

माता का आफिस का पता.....

मो0नं0(आफिस).....

10. स्थाई पता.....

11. वर्तमान का पता.....

12. कोविड-19 की जाँच-रिपोर्ट (लखनऊ) हाँ नहीं

13. वि विद्यालय थर्मल स्कैनिंग की जाँच रिपोर्ट डाक्टर हस्ताक्षर दिनांक सहित

मैं, पुत्र/पुत्री..... विद्यार्थी
पाठ्यक्रम सेमेस्टर/वर्ष सत्र शपथपूर्वक
प्रतिबद्ध/वचनबद्ध होकर बयान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में बिन्दु 01से 13 तक में वर्णित सभी तथ्य सत्य/सही एवं मेरी
पूर्ण जानकारी/वि वसनीय हैं। मैं कोविड/कोरोना बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ तथा पूर्व में भी उक्त संक्रमण से प्रभावित नहीं
हुआ हूँ। मेरे द्वारा वि विद्यालय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत छात्रावास, 2021-22 छात्रावास प्रवे । हेतु जारी Standard
Operating Procedure (SOP) का अनुपालन किया जायेगा। मेरे छात्रावास में आवासित रहने के समय यदि मैं कोविड-19 एवं
अन्य माहामारी से ग्रसित पाया जाता हूँ अथवा इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा तथा मेरे
माता-पिता को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी तथ्य के गलत पाये
जाने पर विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रशासन मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही छात्रावास से निष्कासित करने
के साथ-साथ परीक्षा से विरक्त कर सकता है। मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी दि 11-निर्देशों/गाइड
लाइन/ ।तों/नियमों/विनियमों का अनुपालन करूँगा/करूँगी तथा समय-समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग
करूँगा/करूँगी। मैं परीक्षा की अंतिम तिथि से एक दिन बाद छात्रावास का कमरा खाली कर दूँगा/दूँगी।

विद्यार्थी के पूर्ण नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित
Student's Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष):

पिता/अभिभावक हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)
Father's Signature and Contact no.

माता के हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)
Mother's Signature and Contact no.

चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला छात्रावास

नोट:-(उपरोक्त घोषणा-पत्र फॉर्मेट को वि विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर माँगी गयी सूचना अंकित/संलग्न करें।)
(छात्रावास में आवंटन विश्वविद्यालय की छात्रावास नियमावली के अधीन रहेगी)

नवीनतम पासपोर्ट
साइज स्वप्रमाणित
फोटो
(पिता)

नवीनतम पासपोर्ट
साइज स्वप्रमाणित
फोटो
(माता)

छात्र छात्रावास पहचान-पत्र

1. विद्यार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. विभाग / संकाय / कक्षा.....सेमेस्टर.....
5. दिव्यागंता.....
6. जाति.....
7. जन्म तिथि.....
8. ब्लॉक.....कक्ष सं०.....
9. छात्रावास पंजीयन तिथि.....
10. स्थाई पता.....

नवीनतम पासपोर्ट
साइज स्वप्रमाणित
फोटो

छात्र हस्ताक्षर दिनांक सहित

चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला / पुरुष छात्रावास

छात्र छात्रावास पहचान-पत्र

11. विद्यार्थी का नाम.....
12. पिता का नाम.....
13. माता का नाम.....
14. विभाग / संकाय / कक्षा.....सेमेस्टर.....
15. दिव्यागंता.....
16. जाति.....
17. जन्म तिथि.....
18. ब्लॉक.....कक्ष सं०.....
19. छात्रावास पंजीयन तिथि.....
20. स्थाई पता.....

नवीनतम पासपोर्ट
साइज स्वप्रमाणित
फोटो

छात्र हस्ताक्षर दिनांक सहित

चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला / पुरुष छात्रावास

Dr. SHAKUNTALA MISRA NATIONAL REHABILITATION UNIVERSITY
LUCKNOW

HOSTEL

UNDERTAKING

I ----- Ms/Mrs Son/Daughter of
-----seeking admission in -----
Girls/Boys Hostel Dr. Shakuntala misra National Rehabilitation University,
Lucknow is unable to submit the following documents to Admission
Committee at Girls/Boys Hostel at the time of counselling:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

I do hereby undertake to submit the above mentioned documents within 20
Days Without fail.

Name:

Father;s Name:

FOR ADMISSION COMMITETEE

Date:

Signature: